


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 2001 (फाल्गुन 26, 1922)
 No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 2001 (PHALGUNA 26, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2
 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

दिनांक 1 मार्च 2001

नई दिल्ली-110004, दिनांक 23 फरवरी 2001

सं० ए० 3(4)/एच/स्था०-2001—राष्ट्रपति के सचिव ने श्री के० सी० जयरामन को 23 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में राष्ट्रपति सचिवालय के गृह स्थापना में उप नियंत्रक के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है।

लिखी राम, अवर सचिव (स्था०)

सं० ए-39011/39/96-प्रशासन—श्रीमती नागलक्ष्मी राजगोपाल, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, स्वेच्छा से सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48-ए के अन्तर्गत, 1 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से सेवा निवृत्त हुई।

लिखी राम, अवर सचिव (प्रशासन)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2001

दिनांक 28 फरवरी 2001
 सं० ए-36011/23/96-प्रशासन—राष्ट्रपति के गृह स्थापना में, उप-नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के परिणाम-स्वरूप, श्री के० सी० जयरामन ने 23 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के निजी सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

लिखी राम, अवर सचिव प्रशासन

सं० आर० एस०/13 (ii)/1997/15-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने लोक सभा सचिवालय के श्री सुरिन्दर कुमार वर्मा, सहायक नियंत्रक, मुद्रण और प्रकाशन को राज्य सभा सचिवालय में 20 फरवरी, 2001 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक, प्रतिनियुक्ति आधार पर, दो वर्षों की अवधि के लिए मुद्रण और प्रकाशन नियंत्रक के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० रं० गुहागुप्त, उप सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2001

सं. आर. एस. /895/स्था. (कां)—श्री रोशन लाल, अधिशासी अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28 फरवरी, 2001 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

प्र. रं. गुहाराय, उप सचिव

सं. आर. एस./2(ii)/2000/19-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में बरिष्ठ समिति सहायक श्री अशोक कुमार साहू को श्री जगमोहन सुन्दिवाल, अवर सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण उत्पन्न शृंखला रिक्त पद पर 1 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक विधायी/अधिशासी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्री पी. नारायणन, जिन्हें दिनांक 31-1-2001 की अधिसूचना सं. आर. एस./2(ii)/2001/5-कामिक के द्वारा श्री जगमोहन सुन्दिवाल, अवर सचिव के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पद पर विधायी/अधिशासी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 1 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेशों के अधीन होंगी।

प्र. रं. गुहाराय, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी 2001

सं. आर. एस./17(ii)/2001/16-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (सुरक्षा) श्री अजीत सिंह को 26 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उस सचिवालय में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

वनजा एन. सरना, निदेशक

सं. आर. एस./17(ii)/2001/17-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (सुरक्षा) श्री हेमचन्द्र दत्त शर्मा को 26 फरवरी 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उस सचिवालय में उप निदेशक (सुरक्षा) के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

वनजा एन. सरना, निदेशक

सं. आर. एस./17(ii)/2001/18-कामिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा में सुरक्षा अधिकारी, श्री जसवंत सिंह यादव को 26 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से

आगामी आदेशों तक श्री तपन राय, सहायक निदेशक (सुरक्षा) के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उस सचिवालय में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्री राजकुमार वर्मा, जिन्हें श्री तपन राय, सहायक निदेशक (सुरक्षा) के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, अधिसूचना सं. आर. एस./17(ii)/2000/13-कामिक, दिनांक 11 अप्रैल, 2000 द्वारा सहायक निदेशक (सुरक्षा) के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 26 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उस संवर्ग में नियमित कर दिया गया है।

वनजा एन. सरना, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 फरवरी, 2001

सं. पी. एफ. 2926(3)/जी. एन.-4540/ए. एन.-I/2001—श्री श्रीनिवासुलु गुंडा ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. जी. एन.-4248/98 के क्रम में है।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 फरवरी, 2001

सं. पी. एफ.-965(3)/ए. एन.-I/जी. एम.-4542/2001—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, विधायी/कार्यकारी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी 28 फरवरी, 2001 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2001

सं. एफ. 6(1712)/97-प्रशासन-1—अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के बाव, आई. ई. एस. के एन. एफ. एस. जी. अधिकारी और योजना आयोग में निदेशक श्री एच. सी. भारती दिनांक 28-02-2001 (अपराह्न) से सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त होते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2001

सं. ए-39013/1/2000-प्रशा.-I—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कर्मचारी कोड सं. 4671 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वैज्ञानिक अधिकारी/डिजीटल ग्रेड

'एसबी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 16-10-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है। दिनांक 5-8-2000 से 16-10-2000 तक की उनकी अनुपस्थिति की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गयी अवधि के रूप में नहीं माना गया है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा०-I--सहानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री रोशन शर्मा, कर्मचारी कोड, सं० 4932 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सिक्किम, राज्य गंगतोक में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एसबी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 10-11-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है। दिनांक 14-10-2000 से 10-11-2000 तक की उनकी अनुपस्थिति की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गयी अवधि के रूप में नहीं माना गया है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2001

सं० के० 13017/4/99-यू०एस०-II--भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री रंजन गोगोई को अपने पद का कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से गौहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गावास गुप्ता, संयुक्त सचिव

कंपनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2001

सं० ए-38014/3/2000-प्रशा०-1--डा० पी०एल० संजीव रेड्डी, आई० ए० एस० (एपी-1964), सचिव, कंपनी कार्य विभाग, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, से सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर 31-12-2000 के अपराह्न में भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

सतपाल, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2001

सं० 20/जी/2389-प्रशा०-1 (क)--राष्ट्रपति, श्री मुकेश भिस्ल, भा०रा०से० (आई०टी० : 87) को गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में दिनांक 15 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

पी० बी० शिवरामन, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2001

सं० 20/जी/2364-प्रशा०-1 (क)--राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री जी० एन० सिंह, अनुभाग अधिकारी (सी०एस०एल० सं० 3630), (वर्ष 1991 की चयन सूची के सीधे नियुक्त अनुभाग अधिकारी) को गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 8 मितम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री जी० एन० सिंह की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 पर नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की लम्बित चयन सूची के तैयार होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

3. श्री जी० एन० सिंह उनकी तदर्थ नियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में उनका नाम शामिल करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकेंगे। इस तदर्थ पब्लिसिटी का उपयोग वरिष्ठता के दावे के रूप में नहीं किया जाएगा, जब उनका नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में शामिल किया जाएगा।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय शापन सं० 31/23/98-ई० ओ० (एम० एम० 1), दिनांक 24 सितम्बर, 1999 के अनुसार रोटेशन नीति में निहित प्रावधानों के तहत श्री जी० एन० सिंह की गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में की गई नियुक्ति उनके कार्य ग्रहण करने की तिथि जो कि 8-9-2000 (पूर्वाह्न) है, से 7 वर्ष के लिए होगी। यद्यपि, ऊपर दर्शाई गई अवधि के होने पर भी वे अगले आदेशों तक, जो कि उनकी अवधि (टेन्यूर) के समाप्त होने से पूर्व अथवा पश्चात हो सकती है, इस पद पर कार्य करते रहेंगे।

पी०बी० शिवरामन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

[(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)]

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2001

सं० 14015/1/2000-अ०भा०से०(1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पब्लिसिटी द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) आर० आर० चौहान (2) के० एच० कनोजिया (3) आर० आर० सोलंकी (4) श्रीमती शीलाबेन एन० बेंजमिन (5) ई०आई० कलाशभा (6) आई०बी० पिज्जिदा (7) एम०बी० जोशी तथा (8) आर० आर० बसानी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन गुजरात संवर्ग में आवंटित करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, अहमदाबाद बेंच में श्री एम० एम० मेहता द्वारा दायर ओ० ए० संख्या 602/2000 के अंतिम निर्णय के अधधीन है।

आर० वेंचनाथन, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2001

संख्या-14015/24/2000-अ०भा०से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, तमिलनाडु राज्य मिश्रित सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) बी० कण्णुचामी (2) ए० रामनियम तथा (3) आर० वेंकटेशन को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन तमिलनाडु संवर्ग में आवंटित करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 471/2001 के अंतिम निर्णय के अधधीन है।

आर० वेंचनाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2001

सं० 13017/38/2000-अ०भा०दे० (1)—केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मिथिलेश कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर०आर० : 74) को 14-11-2000 से एक वर्ष के लिए बिहार के राज्यपाल के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करती है।

के० के० गर्मा, डैस्क अधिकारी

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2001

सं० ए-19013/1/2001-प्र० सु० (प्रशा० 1).—राष्ट्रपति, भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार को 20 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० पी० पांडे, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2001

सं० 03/पी बी/98.—राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के समन्वित ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री संजय कुमार, जो मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को अपना नाम परिवर्तित करके श्री संजय कुमार वर्मा करने की अनुमति दी गयी है। अब से सभी सरकारी रिकार्डों और अभिव्यक्तियों में उन्हें संजय कुमार वर्मा के रूप में जाना जायेगा।

आर० एस० महोदय, प्रशासनिक अधिकारी (पी०बी०)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2001

सं० 04/पी० बी०/2000.—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा की सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV के निम्नलिखित अधिकारियों की 2 फरवरी, 2001 के मंत्रालय के ज्ञापन सं० ब्यू/सी ए डी/611/2/99 के अनुरूप उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथियों से भारतीय विदेश सेवा की सामान्य संवर्ग के समन्वित ग्रेड-II और III में स्थापनापन्न नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	तेनाती का स्थान
1.	श्री बैष्णव चरण प्रधान	01-01-2001	प्रोप-I
2.	श्री राम करण वर्मा	01-01-2001	प्रोप-I
3.	श्री नबा कुमार पाल	01-01-2001	एकम पी आर

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने अपने नाम के सामने लिखी तिथियों से अनुभाग अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

सी० एम० रणदेव, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2001

सं० 11 (फा० सं० ए-19014/2/2001-प्रशा०-I).—राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग में स्थायी सहायक, श्री अजय कुमार को 01-02-2001 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक राजस्व विभाग के तहत कनिष्ठ विश्लेषक (आ० का० अ० एकक) नियुक्त करते हैं।

प्यारे लाल, अवर सचिव

सं० 12 (फा० सं० ए-19014/1/2001-प्रशा०-I).—

राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री राजीव जोहरी को 1-2-2001 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में कनिष्ठ विश्लेषक (तस्करी रोधी) नियुक्त करते हैं।

प्यारे लाल, अवर सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2001

सं० 13 (फा० सं० ए-19013/2/2001-प्रशा०-1)—राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री रजनीश को अरविन्द को राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 12-2-2001 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

प्यारे लाल, अवर सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं० 1/2/2000-प्रशासन—एम प्राधिकरण की दिनांक 28-2-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में कृषि एवं सहकारिता विभाग में स्थायी निजी सचिव श्री एस० के० सचदेवा को इस प्राधिकरण में प्रधान निजी सचिव के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति उन्हीं निम्बधों और शर्तों पर एक वर्ष (25-2-2001 से 24-2-2002) या अगले आदेश तक की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

हनुवन्त किशोर, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2001

सं० ए-11011/5/2000-स्था०—राष्ट्रपति, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में श्री अजीत कुमार नन्दी को 1 नवम्बर 2000 पूर्वाह्न से 6,500-10,500/- रु० के वेतनमान में सहायक निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री नन्दी की नियुक्ति सह-समाप्य आधार पर या जब तक मंत्री जी चाहें, जो भी पहले हो, तक है।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं० ए-11015/1/99-प्रशा०—इस मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति श्री बूटा राम झाभट की 12000-16500/- रु० के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 1-1-2001 से 30-6-2001 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

ऊपर उल्लिखित पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। सरकार तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय रद्द करने और उन्हें प्रधान निजी सचिव के पद पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार रखती है।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

दिनांक 22 फरवरी 2001

सं० 12025/5/95-प्रशा०—संयुक्त समिति विभागीय प्रति-योगी परीक्षा 1999 उत्तीर्ण करने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2001 के का० ज० सं० 5/2/2001-सी एस-II के तहत इस मंत्रालय के सीएसएसएस के ग्रेड “क” एवं “ख” (संविलीन) में नियुक्ति के लिए नामांकन किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री वसंत कुमार, स्थायी ग्रेड “सी” आशुनिपिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, को कोयला मंत्रालय में दिनांक 16 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से 6500-200-10,5000/- रु० के वेतनमान में सीएसएसएस (पी० एम०) के ग्रेड “क” एवं “ख” (संविलीन) में महर्ष नियुक्त करते हैं।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० 12/1/2001-ए० एस० ओ०—राष्ट्रपति जी द्वारा श्री एस० के० जी० रूहाटे, भा० प्र० से० (भारखंड : 90) को दिनांक 8-2-2001 से दिनांक 8-2-2003 की अवधि के लिए अथवा जब तक कि उनका कार्यकाल कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में समाप्त न हो जाए अथवा अगले आदेश जारी होने तक इससे से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला राज्य मंत्री (श्री मैयद शाहनवाज हुसैन) के निजी सचिव के रूप में उप सचिव के समतुल्य पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री रूहाटे की मंत्री महोदय के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति मंत्री महोदय के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2001

सं० ए-11035/1/95-प्रशासन-1: राष्ट्रपति, श्रीमती मीनाक्षी रावत (सा०आ०से०) को दिनांक 6 फरवरी, 2001 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग में 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में उप निदेशक (एम एस आई एस) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० के० नायक, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003 दिनांक 27 फरवरी, 2001

सं० ए-38011/1/98-पी-1 (.)—अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक “एफ” डा० आई० के कम्बोज, 28 फरवरी, 2001 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पी० एस० शर्मा, अवर सचिव

सं० एक 3/2/98-सी एस जेड—राष्ट्रपति, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को 17-7-2000 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दिए ग्रेड/पदनाम में नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम (वेतनमान)
1.	डा० सुजित चक्रवर्ती	वैज्ञानिक 'ई' (14,300-18,300 रु०)
2.	डा० ए० के० दास	-वही-
3.	डा० ए० के० हजारा	-वही-
4.	श्री सी० राधाकृष्णन	-वही-
5.	डा० एन० सी० नन्धी	-वही-
6.	डा० ए० के० सान्याल	-वही-
7.	डा० अखलक हुसैन	-वही-
8.	डा० एन० दत्ता	-वही-

ए० के० मेहता, उप सचिव

सं० एक 1/15/99-सी०एस०जेड०—राष्ट्रपति, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को 17-7-2000 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दिए ग्रेड/पदनाम में नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम (वेतनमान)
1.	डा० ब्यू एच बाकरी	वैज्ञानिक 'एफ' (16,400-20,300 रुपये)
2.	डा० जे के जोमाथन	वैज्ञानिक 'एफ' (16,400-20,300 रुपये)

ए० के० मेहता, उप सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2001

सं० ए-31014/1/98-स्था०-1—राष्ट्रपति परिवीक्षा अवधि सफलता से समाप्त करने पर श्री ब्रिजलाल प्रसाद (सीधी भर्ती 1995) को 6-7-1999 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में मूल रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० एस० ओहरी, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

सं० ए० 39012/6/99-सी० एच० एस०-1 डा० (श्रीमती) अनिता वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने अपने त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 18 फरवरी, 2000 के अपराह्न को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया समाप्त जाता है।

जगवीर कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं० ए० 12025/13/2000-सी०एच०एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० ब्रिजेश शर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर/विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 17-10-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अथवा इस पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में तैनात करते हैं।

डा० ब्रिजेश शर्मा ने 16 अक्तूबर, 2000 पूर्वाह्न को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग से मुख्य-चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

डी० आर० शर्मा, अवर सचिव

सं० ए० 38012/3/2000-सी०एच०एस०-II—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर उपसंवर्ग के सुपर टाइम ग्रेड के अधिकारी डा० एन० श्रीनिवासन ने अपनी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप 1 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद से परामर्शदाता (कार्य-चिकित्सा) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

डी० आर० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2001

संख्या ए० 18011/1/2000-सी०एच०एस०-II—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमित संवर्ग के डा० पी० पी० सी० रेवानी ने अधिवर्षितावय पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन 31 अक्तूबर, 2000 के अपराह्न को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन०एच०एस०जी०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

यू० सी० नानगा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2001

सं० 27-2439/2001-स्था-I—राष्ट्रपति श्री सरस्वती प्रसाद, भा०प्र०से० (असम : 85) को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में 15,100-400-18,300 रुपये वाले वेतनमान में 8 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिये या आगामी आवेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० रविन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० 8-10/82-भूमि/एस० डब्ल्यू० सी०-3.—राष्ट्रपति अधिल भारतीय मृदा एवं भूमि सर्वेक्षण संगठन के सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी श्री बी० मलैया को 28 फरवरी 2001 को अपराह्न से सेवा-निवृत्ति की आयु होने पर सरकारी सेवा में सेवा निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

राकेश कुमार अग्रवाल, अवसर सचिव

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2001

सं० ए-32014/18/99-प्रशा० II.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शाई तारीखों से 4 माह की अवधि या नियमित अनुभाग अधिकारियों के आने तक, दोनों में से जो भी पहले हो दूरसंचार विभाग के संवर्ग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड (6,500-200-10,500/-रु०) में नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं० अधिकारी का नाम तदर्थ नियुक्ति की तारीख (सर्व श्री)

1.	सुनील कुमार अग्रवाल	03-01-2001 (पूर्वाह्न)
2.	राजेश कुमार	03-01-2001 (पूर्वाह्न)
3.	सुरेन्द्र ठाकुर	03-01-2001 (पूर्वाह्न)
4.	राजीव कुमार जैन	03-01-2001 (पूर्वाह्न)
5.	शिव सिंह (अ०ज०जा०)	05-01-2001 (पूर्वाह्न)

2. उक्त पांचों अनुभाग अधिकारियों को भारत संचार निगम लि० में तैनात किया गया है।

3. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से संबंधित कर्मचारियों को उनके इस ग्रेड में नियमितीकरण या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

सतीश वधवा, सहायक महानिदेशक (प्रशा० II)

दिनांक 16 जनवरी 2001

सं० ए-32014/18/99-प्रशा० II.—राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (6,500-200-10,500/-रु०) के ग्रेड में सी०एस०एस० के सहायक श्री ए० आर० बिंदी (अनुसूचित जाति) को 12-01-2001 (पूर्वाह्न) से चार महीने के लिए या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में नियमितीकरण अथवा वरीयता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

सतीश वधवा, सहायक महानिदेशक (प्रशा०-II)

दिनांक 18 जनवरी 2001

सं०-ए-12023/2/99-प्रशा०-II.—दूरसंचार विभाग की दिनांक 7-3-2000 तथा 29-8-2000 की समसंख्यक अधि-

सूचनाओं के अनुक्रम में राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग में तत्स्थाने/व्यक्तिगत उन्नयन के आधार पर प्रोन्नत सी० एस०एस० के सहायक महानिदेशक डॉ० बी० बी० भाटिया को इसी विभाग में जी० सी० एस० ग्रुप "ए" पद पर 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 28-2-2001 से छह माह की अवधि के लिए अथवा जब तक इस पद के लिए नियमित पदधारी उपलब्ध न हो, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा शर्तों पर उप-विधिसलाहकार (डिप्टी लीगल एडवाइजर) के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

सतीश वधवा, सहायक महानिदेशक (प्रशा०-II)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मार्च 2001

सं० 41-1/95-प्रशासन 1.—राष्ट्रपति, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन, दूरसंचार विभाग में कार्यरत श्री डी० मजुमदार कनिष्ठ बेतार अधिकारी को 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 1-1-2001 से 30-6-2001 तक अथवा जब तक पद को नियमित आधार पर भरा जाता है, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से इंजीनियर के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन० मुखर्जी, सहायक महानिदेशक (प्रशासन-1, ख)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जनवरी 2001

एफ सं० 1-1/2001-एसपीजी.—डाक निदेशालय में उप महानिदेशक (आईआर) श्री विनोद धमीजा (आईपीओएस 1970) को 8-11-2000 से आगामी आदेशों तक उप महानिदेशक (आईआर) तथा सचिव, डाक सेवा बोर्ड नियुक्त किया जाता है।

ए० के० दाण्ड, निदेशक (स्टाफ)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 2000

सं० 95/ई(जी आर) 1/33/1.—राष्ट्रपति निम्नलिखित परिवीक्षाधीनों (प्रोवेंशनरी) को रेलवे सुरक्षा बल में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम (सर्वश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	अजय सदा नी	6-9-96
2.	अंजनी कुमार सिन्हा	6-9-96
3.	मंदीप सिंह भाटिया	6-9-96
4.	अरुण जोशी के०	6-9-96
5.	अखिलेश चन्द्र	4-9-95

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जीआर)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2001

मं० ईआरबी-1/2001/2/9.—श्री ए० के० चोपड़ा, भा० रे० सि० इंजी० से०, विशेष कार्य अधिकारी/आर० सी० आई० एल० को दिनांक 1-2-2001 के पूर्वाह्न से रु० 24050-26000/- के ग्रेड में अपर सक्षम्य (मिगनल), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2001

मं० 4/2001-मि०सं०ए०-32013/1/99-प्रशा० एक.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह ख) सेवा के सहायक निदेशक (ग्रेड-II)/सहायक अभियन्ता के ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा के सहायक निदेशक (ग्रेड-I)/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 2200-4000/- रुपए के वेतनमान (पूर्व संशोधित) में नियुक्त करते हैं।

क्र०सं०	नाम (सर्वश्री)	नियुक्त करने की तिथि
1.	आर० के० गुप्ता	18-1-2000 (पूर्वाह्न)
2.	मौ० फारुख	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
3.	श्यामल कान्ति देव	5-2-2001 (पूर्वाह्न)
4.	डी० जी० वनैकर	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
5.	बिनोद कुमार गुप्ता-II	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
6.	एस० के० वार्धनेय	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
7.	वी० के० शर्मा	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
8.	नसी भगत	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
9.	ए० के० वर्मा	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
10.	राजेश्वर शर्मा	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
11.	रमेश बत्रा	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
12.	वी० एस० रावत	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
13.	किरणाल मिह	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
14.	आई० पी० मिह	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
15.	वी० बी० मंडल	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
16.	एस०के० बाबूलाल चन्कारिया	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
17.	राजीव विमारिया	19-1-2001 (पूर्वाह्न)
18.	वी० के० गुप्ता-II	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
19.	दयानन्द मिह	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
20.	ए० के० माहा	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
21.	दिलीप चन्द	18-1-2001 (पूर्वाह्न)
22.	पी० के० मित्तल	18-1-2001 (पूर्वाह्न)

2. ये अधिकारी उनकी सहायक निदेशक (ग्रेड-I)/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों तक पश्चिमा पर रहेंगे।

एम० एन० बर्मन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० 5/2001-मि०सं०ए०-39012/5/2000-प्रशा० एक.—राष्ट्रपति, श्री एम० आर० कण्डगे, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक (ग्रेड-एक)/सहायक कार्यकारी अभियन्ता द्वारा दिए गए त्याग-पत्र को 23 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं।

वी० सी० काजला, अवर सचिव

सं० 6/2001-मि० सं० ए०-38012/1/2001-प्रशा० एक.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री दे गणपती दत्ता, जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक (ग्रेड-एक)/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 जनवरी, 2001 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

वी० सी० काजला, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2001

सं० 9/1/2000-ई०-II.—राष्ट्रपति, दिनांक 16-3-1999 (पूर्वाह्न) से श्रीमति नीलम फौगट को केन्द्रीय मूढा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक) के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

वी० के० त्रिखा, उप सचिव

सं० 9/2/2000-ई०-II.—राष्ट्रपति, दिनांक 29-12-1999 (पूर्वाह्न) से श्री एन० होनकवार को केन्द्रीय मूढा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

वी० के० त्रिखा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2001

सं० 11/2001, फाईल सं० 19/1/2001 स्था०-I.—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के सहायक निदेशक के निम्नलिखित अधिकारी श्री एम० आर० मालवीय, केन्द्रीय जल आयोग, दिनांक 31-12-2000 (पूर्वाह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

(HOUSEHOLD ESTABLISHMENT)

New Delhi-110004, the 23rd February 2001

No. F. 3 (4)/H/Estt-2001.—Secretary to the President is pleased to appoint Shri K. C. Jayarajan as Deputy Comptroller in Household establishment of the President's Secretariat with effect from the forenoon of 23 February, 2001.

LIKHI RAM, Under Secy. (Estt)

The 26th February 2001

No. A. 36011/23/96-Adm.—Consequent on his appointment as Deputy Comptroller of President's Household in the Household Establishment of the President's Secretariat, Shri K. C. Jayarajan relinquished the charge of the post of Private Secretary to the President, with effect from the forenoon of 23rd February, 2001.

LIKHI RAM, Under Secy. (Admn)

The 1st March 2001

No. A-39011/39/96-Admn.—Shrimati Nagalakshmi Rajgopal, Section Officer, President's Secretariat, retired from Government Service voluntarily under Rule 48-A of Civil Services (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 1st March, 2001.

LIKHI RAM, Under Secy. (Admn)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd February 2001

No. RS/15 (ii)/199/15-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Sunder Kumar Verma, Assistant Controller of Printing and Publications in Lok Sabha Secretariat as Controller of Printing and Publications in Rajya Sabha Secretariat on deputation basis, for a period of 2 years, with effect from the afternoon of the 20th February, 2001, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

The 28th February 2001

No. RS/895/Estt. (P).—On attaining the age of superannuation, Shri Rosnah Lal, Executive Officer retired from service with effect from the afternoon of the 28th February, 2001.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/2 (ii)/2000/19-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ashok Kumar Sahoo, Senior Committee Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer in that Secretariat with effect from the forenoon of the 1st March, 2001, against the deputation cum vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Under Secretary until further orders.

2. Shri P. Narayanan who was earlier appointed to officiate in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer against the deputation cum vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Under Secretary vide Notification No. RS/2 (ii)/2001/5-Perl. dated 31-1-2001 has now been appointed on a regular basis that grade with effect from the forenoon of the 1st March, 2001 until further orders.

3. The above appointments would be subject to the orders of Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy

New Delhi-110001, the 27th February 2001

No. RS/17 (ii)/2001/16-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ajit Singh, Deputy Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Joint Director (Security) in that Secretariat with effect from the forenoon of the 26th February, 2001, until further orders.

VANAJA N. SARNA, Director

No. RS/17 (ii)/2001/17-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Hem Chand Datt Sharma, Assistant Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Deputy Director (Security) in that Secretariat with effect from the forenoon of the 26th February, 2001, until further orders.

VANAJA N. SARNA, Director

No. RS/17 (ii)/2001/18-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Jaswant Singh Yadav, Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Assistant Director (Security) in that Secretariat with effect from the forenoon of the 26th February, 2001, against the deputation vacancy of Shri Tapan Roy, Assistant Director (Security) until further orders.

2. Shri Raj Kumar Verma who was appointed to officiate in the cadre of Assistant Director (Security) against the deputation vacancy of Shri Tapan Roy, Assistant Director (Security) vide Notification No. RS/17(ii)/2000/13-Perl. dated the 11th April, 2000 has now been regularised in that cadre with effect from the forenoon of 26th February, 2001 until further orders.

VANAJA N. SARNA, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th February 2001

No. PF. 2925 (3)/GN-4540/AN-1/2001.—Shri Srinivasulu Gunda has satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

2. This is in continuation of Notification No. GN-4248/98 dated 16th December, 1998.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

The 28th February 2001

No. PF. 965 (3)/AN-1/GN-4542.2001.—On attaining the age of superannuation, Shri Satish Chander Sharma, Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer has retired from service with effect from the afternoon of 28th February, 2001.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th February 2001

No. F. 6 (1712)/97-Adm. 1.—On attaining the age of superannuation, Shri H. C. Bhutta, NFSG officer of IES and Director, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 28-2-2001 (A/N).

E. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 14th February 2001

No. A-39013/1/2000-Adm. I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Sh. Praveen Kumar Tripathi, Emp. Code No. 4671, from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. SB, National Informatics Centre Headquarters, New De-hi, with effect from the afternoon of 16-10-2000 and he is relieved of his duties from the same date. The period of his absence from 05-8-2000 to 16-10-2000 is treated as the period not spent on duty.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

No. A-39013/1/2000-Adm. I.—Director General of National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Sh. Roshan Shatma, Emp. Code No. 4932, from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Sikkim State Unit, Gangtok, with effect from the afternoon of 10-11-2000 (A/N) and he is relieved of his duties from the same day. The period of his absence from 14-10-2000 to 10-11-2000 is treated as the period not spent on duty.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 23rd February 2001

No. K. 13017/4/99. US. II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ranjan Gogoi, to be a Judge of the Gauhati High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 2nd January 2001

No. A. 38014/3/2000-Ad. I.—On attaining the age of superannuation, Dr. P.L. Sanjeev Reddy, IAS (AP : 1964), Secretary, Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs retired from the Government service in the afternoon of 31-12-2000.

SAT PAL, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th February 2001

No. 20/G/2389-Ad. I(A).—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Mittal, IRS (IT : 87), as Deputy Secretary, in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 15th February, 2001, until further orders.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

The 27th February 2001

No. 20/G/2364-Ad. I(A).—The President is pleased to appoint Shri G. N. Singh, Section Officer of Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Information and Broadcasting (CSL No. 3630) (Direct Recruit Section Officer of 1991 Select List) to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 8th September, 2000.

2. The appointment of Shri G. N. Singh to the Grade I of CSS is purely on adhoc basis pending preparation of Select List of Grade I of CSS or until further orders, whichever is earlier.

3. Shri G. N. Singh will have no claim for inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS on the basis of his adhoc appointment. The adhoc promotion shall not be used to claim seniority as and when his name is included in the Select List for Grade-I of CSS.

4. The appointment of Shri G. N. Singh as Under Secretary on adhoc basis in the Ministry of Home Affairs is for a period of 7 years from the date of his joining i.e. 8-9-2000 (F/N) in accordance with the Rotation Policy as contained in Department of Personnel and Training's O. M. No. 31/23/98-EO (MM. D) dated the 24th December, 1999. However, notwithstanding the tenure as indicated above, he will continue on the post until further orders, which may be earlier or later than the date of expiry of his tenure.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 23rd February 2001

No. 14015/1/2000-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) R. R. Chauhan (2) K. H. Kanolija (3) R. R. Solanki (4) Smt. Shilaben L. Benjamin (5) E. L. Kalagava (6) I. B. Pirzada (7) M. V. Joshi and (8) R. R. Varsani, members of the State Civil Service of Gujarat to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the cadre of Gujarat under sub rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of the above mentioned officers to the Indian Administrative Service is subject to the final outcome of OA No. 602/2000 filed by Shri M. M. Mehta before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Ahmedabad Bench.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

The 26th February 2001

No. 14015/24/2000-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) V. Kannuchamy (2) A. Ramalingam and (3) R. Venkatesan, members of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the cadre of Tamil Nadu under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of the above mentioned officers to the Indian Administrative Service is subject to the final outcome of Writ Petition No. 471/2001 filed by State of Tamil Nadu before the Hon'ble Madras High Court.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

New Delhi, the 26th February 2001

No. 13017/38/2000-AIS(I).—In exercise of the powers vested under Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government accords approval for deputation of Shri Mithilesh Kumar, IAS (RR:74) to Bihar for his appointment as Secretary to the Governor of Bihar for a period of one year wef 14-11-2000.

K. K. SHARMA, Desk Officer.

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 1st March 2001

No. A-19013/1/22001-AR(A).—The President is pleased to appoint Shri Surendra Kumar, an Officer of Indian Information Service as Deputy Secretary in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, with effect from the forenoon of 20 February 2001 until further orders.

A. P. PADHI, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th February 2001

No. 03/PB/98.—Shri Sanjay Kumar, an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), working as a Section Officer in the Ministry, has been permitted to change his name to Shri Sahjay Kumar Verma. Henceforth, in all official records and communications, he will be known as 'Sanjay Kumar Verma'.

R. S. MALHOTRA, Administrative Officer (PB).

New Delhi, the 7th February 2000

No. 04/PB/2000.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers belonging to Grade IV of the General Cadre of IFS(B) to officiate in Integrated Grades II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names, in terms of Ministry's Memorandum No. Q/CAD/611/2/99 of 2nd February, 2001.

S: No., Name of the Officer, Date of Promotion and Place of Posting.

1. Shri Balsnab Charan Pradhan, 1-1-2001, Prop I
2. Sh. Ram Karan Verma 1-1-2001—Prop I.
3. Shri Naba Kumar Pal 1-1-2001, XPR.

2. The above named officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

C. S. RANDEV, Admn. Officer (PB).

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7th February 2001

No. II-(F. No. A-19014/2/2001.Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Singh, a permanent Assistant in the Finance Cadre as Junior Analyst (IWSU) under the Department of Revenue with effect from 1-2-2001 (F/N) for a period of one year and until further orders.

PYARE LAL, Under Secy.

No. 12 (F. No. A-19014/1/2001.Ad.I).—President is pleased to appoint Shri Rajeev Jauhari, a regular Section Officer of the Central Secretariat Service Cadre of Depart. of Industrial Policy & Promotion as Junior Analyst (Anti-Smuggling) Central Board of Excise & Customs under the Department of Revenue with effect from 1-2-2001 (F/N) on deputation basis for a period of one year and until further orders.

PYARE LAL, Under Secy.

The 14th February 2001

No. 13 (F. No. A-19013/2/2001-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Rajneesh K. Arvind, an officer of IRS as Under Secretary in the CBDT in the Department of Revenue for a period of three years wef 12-2-2001 (F/N) or until further orders.

PYARE LAL, Under Secy.

(APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION)

New Delhi 110001, the 20th February 2001

No. 1/2/2000-Admn.—In continuation of this Authority's Notification of even number dated the 28th February, 2000, the period of deputation of Sh. S. K. Sachdeva, a permanent Private Secretary of the Department of Agriculture and Co-operation as Principal Private Secretary in this Authority is extended for a period of one year i.e. from 25-2-2001 to 24-2-2002 or until further orders, on the same terms & conditions.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETRO-CHEMICALS)

New Delhi, the 20th February 2001

No. A-11011/5/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Nandi as Assistant P. S. in the personal staff of Minister of State for Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500 with effect from the forenoon of 1st November, 2000.

2. The appointment of Shri Nandi is on co-terminus basis or for so long as desired by the Minister, whichever event takes place earlier.

R. P. VIJASITHA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 20th February 2001

No. A-11015/1/99-Admn.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 5th July, 2000, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri Boola Ram Jhamat to the post of Sr. Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 12000—16500/- for a period w.e.f. 1-1-2001 to 30-6-2001 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

The abovementioned promotion is purely on ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on him any right for regular promotion. The Government reserves the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert him to the post of Principal Private Secretary.

PARKASH CHAND, Under Secy.

The 22nd February 2001

No. A-12025/5/95-Admn.—Consequent upon his qualifying the combined Limited Departmental Competitive Examination, 1999 and his nomination for appointment to the Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS in the cadre of this Ministry vide DOPT's O. M. No. 5/2/2001-CS. II dated 1st February, 2001, the President is pleased to appoint Shri Bassant Kumar, a permanent Grade 'C' Stenographer (PA) of Ministry of Science and Technology to the Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) in Ministry of Coal in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 16th February, 2001.

PARKASH CHAND, Under Secy.

The 28th February 2001

No. 12/1/2001-ASO.—The President is pleased to appoint Shri S. K. G. Rahate, IAS (Jharkhand : 90) as Private Secretary to the Minister of State for Coal (Sh. Syed Shah Nawaz Hussain) at the level of Deputy Secretary from 8-2-2001 to 8-2-2003, or till he ceases to work as Private Secretary to Minister of State for Coal or until further orders, whichever is the earliest. The appointment of Shri S. K. G. Rahate as Private Secretary to the Minister of State for Coal will be co-terminous with the tenure of the Minister.

PARKASH CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 27th February 2001

No. A-11035/1/95-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Meenaxi Rawat, (IES) as Deputy Director (SMIS) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Consumer Affairs w.e.f. 6th February, 2001 (F/N) until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 27th February 2001

No. A-38011/1/98-P-I (.)—Dr. I. K. Kamboj, Scientist 'F', in the Ministry of Environment & Forests retiring from government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 2001.

P. S. SHARMA, Under Secy.

(CSZ DESK)

New Delhi-110003, the 26th February 2001

F. No. 3/2/98-CSZ.—The President is pleased to appoint the following Scientists in the Zoological Survey of India with effect from the forenoon of 17-7-2000 in the grades/

designation as indicated against each officer until further orders :—

S. No. Name of Officers and Designation (scale of pay)

1. Dr. Sujit Chakraborty—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
2. Dr. A. K. Das—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
3. Dr. A. K. Hazra—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
4. Sh. C. Radhakrishnan—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
5. Dr. N. C. Nandl—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
6. Dr. A. K. Sanyal—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
7. Dr. Akhlaq Hussain—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300)
8. Dr. M. Dutta—Scientist 'E' (Rs. ~~14,300~~—18,300).

A. K. MEHTA, Dy. Secy.

F. No. 1/15/99-CSZ.—The President is pleased to appoint the following Scientists in the Zoological Survey of India with effect from the forenoon of 17-7-2000 in the grades/ designation as indicated against each officer until further orders :—

S. No., Name of Officers and Designation (Scale of pay)

1. Dr. Q. H. Baqri—Scientist 'F' (Rs. 16,400—20,000)
2. Dr. J. K. Jonathan—Scientist 'E' (Rs. 16,400—20,000).

A. K. MEHTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th February 2001

No. A. 31014/1/99-Estt.I.—On completion of his probation period successfully, the President is pleased to appoint sub-stantively Shri Brijnandan Prasad (DR-1995) to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre of Ministry of Health and Family Welfare with effect from 6-7-1999.

S. S. OHRI, Under Secy

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-11, the 26th February 2001

No. A. 39012/6/99-CHS.I.—Consequent upon acceptance of her resignation Dr. (Smt.) Anila Verma, Senior Medical Officer is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of the Central Health Service under Central Government Health Scheme, Delhi on the afternoon of 18-02-2000.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 20th February 2001

No. A. 12025/13/2000-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Brijesh Sharma to the Specialist Grade-II post of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Medical Specialist in Govt. of N.C.T. of Delhi with effect from the forenoon of the 17th October, 2000 and until further orders.

2. Dr. Brijesh Sharma relinquished charge of the post of C.M.O. from the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of Central Health Service on the afternoon of the 16th October, 2000.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-38012/3/2000-CHS.IV.—Consequent on his proceeding on voluntary retirement Dr. N. Srinivasan, Officer of the Superintending Grade of Non-Teaching Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished charge of the post of Consultant (Medicine) in the CGHS, Hyderabad on the forenoon of 1st December, 2000.

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 27th February 2001

No. A-18011/1/2000-CHS.II.—Consequent on retirement on superannuation, Dr. P. P. C. Rawani, CMO (NFSG) of regularised cadre of Central Health Service relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer (NFSG) under the CGHS, Delhi on the afternoon of 31st Oct, 2000.

U. C. NANGIA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd February 2001

No. 27-2439/2001-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Saritwati Prasad, IAS (AM:85), as Director in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from the forenoon of 8th February 2001, for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

K. RAVINDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 28th February 2001

No. 8-10/82-Lands/SWC.III.—The President is pleased to permit Shri V. Mallaiah, Assistant Soil Survey Officer, All India Soil & Land Use Survey to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 28th February, 2001.

R. K. AGRAWAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-1, the 9th January 2001

No. A-32014/18, 99-Admn.II.—The President is pleased to appoint the under mentioned Assistants of CSS to the grade of Section Officer (Rs. 6,500-200-10,500/-) in the cadre of Department of Telecommunications purely on ad-hoc basis for a period of four months w.e.f. the dates indicated against each or till availability of regular Section Officers, whichever is earlier :—

S. No., Name of the Officer & Date of ad-hoc appointment
S/Shri

1. Sunil Kumar Aggarwal—03-01-2001 (F/N)
2. Rajinder Kumar—03-01-2001 (F/N)
3. Surendra Thakur—03-01-2001 (F/N)
4. Rajeev Kumar Jain—03-01-2001 (F/N)
5. Shiv Singh (ST)—05-01-2001 (F/N)

2. All the five Section Officers are posted in the Bharat Sanchar Nigam Limited.

3. The above ad-hoc appointment will not confer any right for regularization or seniority in the grade of the concerned officials.

SATISH WADHWA, Asstt. Director General (Admn II)

The 16th January 2001

No. A-32014/18/99 Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri A. R. Birdi (SC), Assistant of CSS to the grade of Section Officer (Rs. 6,500-200-10,500/-) in the cadre of Department of Telecommunications purely on ad-hoc basis for a period of four months w.e.f. 12-01-2001 (Forenoon) or till availability of a regular Section Officer, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment will not confer on him any right regularization or seniority in the grade.

SATISH WADHWA, Asstt. Director General (Admn II)

The 18th January 2001

No. A-12023/2/99-Admn.II.—In continuation of Department of Telecommunications' notifications of even number dated 7-3-2000 & 29-8-2000, the President is pleased to permit Dr. V. B. Bhatia, Assistant Director General of CSS on in-situ / personal upgradation basis in Department of Telecommunications, to continue as Deputy Legal Adviser, a GCS Group 'A' post in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/-, in the same Department on ad-hoc basis for a period of six months w.e.f. 28-02-2001, or till a regular incumbent to the post is available, whichever is earlier, on the existing terms and conditions.

SATISH WADHWA, Asstt. Director General (Admn II)

New Delhi-110001, the 2nd March 2001

No. 41-1/95-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri D. Majumdar, Junior Wireless Officer, working in the Wireless Planning & Co-ordination Wing/Monitoring Organisation of the Department of Telecommunications to officiate, on ad-hoc basis, as Engineer in the Monitoring Organisation in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- from 1-1-2001 to 30-6-2001, or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

N. MUKHERJEE, Asstt. Director General (Admn.I-B)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 18th January 2001

F. No. 1-1/2001-SPG.—Shri Vinod Dhamija (IPOS-1970), DDG(IR) in the Postal Directorate is posted as DDG(IR) and Secretary, Postal Services Board w.e.f. 8-11-2000 and until further orders.

A. K. DASH, Director (Staff)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st October 2000

No. 95/E(GR)/I/33/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Railway Protection Force with effect from the date noted against each :—

S. No., Name and Date of Joining
(S/Shri /Ms.)

1. Ajoy Sadany—06-09-96
2. Anjanee Kumar Sinha—06-09-96
3. Mandeep Singh Bhatia—06-09-96
4. Arul Jothi K.—06-09-96
5. Akhilesh Chandra—04-09-95

MANISH KUMAR, Jt. Director, Estt. (GR)
Railway Board

New Delhi, the 22nd February 2001

No. ERB-I/2001/2/9.—Shri A. K. Chopra, IRSSE, Officer on Special Duty/ROIL, has been appointed as Additional Member (Signal), Railway Board in Grade Rs. 24050—26000/- with effect from the forenoon of 01-02-2001.

D. P. TRIPATHI, Secy.
Railway Board & Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 28th February 2001

No. 4/2001, F. No. A-32013/1/99-Adm.I.—The President is pleased to appoint the following officers of the grade of Assistant Director (Grade-II)/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service to the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (Pre-revised) in the Central Electricity Authority with effect from the dates mentioned against each :

Sl. No., Name of the Officer & Date of appointment

1. R. K. Gupta—18-01-20001 (Forenoon)
2. Mohd. Farooq—18-01-2001 (Forenoon)
3. Shyamal Kanti Deb—05-02-2001 (Forenoon)
4. D. G. Varnekar—18-01-2001 (Forenoon)
5. Vinod Kumar Gupta-II—18-01-2001 (Forenoon)
6. S. K. Varshney—18-01-2001 (Forenoon)
7. V. K. Sharma—18-01-2001 (Forenoon)
8. Narsi Bhagat—18-01-2001 (Forenoon)
9. A. K. Verma—18-01-2001 (Forenoon)
10. Rajendra Sharma—18-01-2001 (Forenoon)
11. Ramesh Batra—18-01-2001 (Forenoon)
12. V. S. Rawat—18-01-2001 (Forenoon)
13. Kirpal Singh—18-01-2001 (Forenoon)
14. I. P. Singh—18-01-2001 (Forenoon)
15. B. B. Mandal—18-01-2001 (Forenoon)
16. S. K. Babulal Chandwarra—18-01-2001 (Forenoon)
17. Rajiv Bisaria—19-01-2001 (Forenoon)
18. V. K. Gupta-III—18-01-2001 (Forenoon)
19. Daya Nand Singh—18-01-2001 (Forenoon)
20. A. K. Saha—18-01-2001 (Forenoon)
21. Dalip Chand—18-01-2001 (Forenoon)
22. P. K. Mittal—18-01-2001 (Forenoon)

2. They will be on probation for a period of two years from the date of their appointment to the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer.

S. N. BURMAN, Dy. Secy.

No. 5/2001-F. No. A-39012/5/2000-Adm.I.—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri S. R. Kandage, Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority, with effect from the forenoon of 23rd January, 2001.

V. C. KAJLA, Under Secy

No. 6/2001, F. No. A-38012/1/2001-Adm.I.—On attaining the age of superannuation, Shri D. G. Datta, Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority, retired from service under the Government of India on the afternoon of the 31st January, 2001.

V. C. KAJLA, Under Secy

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd February 2001

File No. 9/1/2000-E.II.—The President is pleased to confirm Smt. Neelam Phogat in the grade of Research Officer (Scientific) in Central Soil & Materials Research Station, New Delhi with effect from 16-03-1999 (Forenoon).

V. K. TRIKHA, Dy. Secy

File No. 9/2/2000-E.II.—The President is pleased to confirm Shri N. Honkandavar in the grade of Senior Research Officer in Central Soil & Materials Research Station, New Delhi with effect from 29-12-1999 (Forenoon).

V. K. TRIKHA, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th February 2001

No. 11/2001 F. No. 19/1/2001-Estt.I.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri M. R. Malviya Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission, an officer in the Junior Time Scale of Central Water Engineering (Group-A) Service, retired from service in the afternoon of the 31-12-2000 (A/N).

HARDAYAL SINGH, Under Secy